



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

26 वैशाख 1939 (श0)  
(सं0 पटना 400) पटना, मंगलवार, 16 मई 2017

---

सं0 08/आरोप-01-222/2014, सां0प्र0-16338

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 दिसम्बर 2016

श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1130/11 के विरुद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के पद पर पदस्थापन के दौरान अनियमित रूप से सोलर लाईट क्रय करने एवं कतिपय अन्य अनियमितता बरतने के आरोपों पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-850, दिनांक 08.02.2016 एवं पत्रांक-4609, दिनांक 19.07.2016 द्वारा क्रमशः आरोप, प्रपत्र 'क' एवं पूरक आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इस क्रम में माँगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने एवं उसमें निहित सरकारी आदेश की अवहेलना के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) में निहित प्रावधानों के तहत संकल्प ज्ञापांक-15423, दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री प्रकाश को संकल्प निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया गया।

श्री प्रकाश ने स्वयं को निलंबन मुक्त करने हेतु एक अभ्यावेदन (दिनांक 23.11.2016) समर्पित किया जिसमें उन्होंने गम्भीर रूप से कैसरग्रस्त होने का जिक्र करते हुए अपने ईलाज से संबंधित कागजात उपलब्ध कराया है। उन्होंने उक्त अभ्यावेदन में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर पाने से संबंधित परिस्थितिजन्य कारणों का भी उल्लेख किया है।

उक्त अभ्यावेदन में निहित स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर समस्याओं एवं परिस्थितिजन्य कारणों पर सम्यक् विचारोपरांत श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1130/11 को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

2. श्री प्रकाश, पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करेंगे।

3. श्री प्रकाश के विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक-15526, दिनांक 18.11.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 400-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>